

Log - To 4 to Chhatarpatti Colony  
**Schedule XLV-Form No. 134**

RWD, Kishanpuri - 2 DIVISION

RWD, Poshina —— SUB-DIVISION

**MEASUREMENT BOOK**

No. 1562

प्रमाणित किया जाता है कि इस माप पुस्त में कुल 100  
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ हैं जो .....  
सहायक अधियंता, ग्रामकार्यालय अवर प्रमाणित हैं।  
के नाम से निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अधिकारी  
ग्रामकार्यालय, काशी  
किशनगंज  
परमपात्र

### Sch. XLV—Form No. 134

Rwd, Kishanganj-2 DIVISION  
Rwd, Polka SUB-DIVISION

## Measurement Book

No. 1563

Name of Officer \_\_\_\_\_

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

1st on AIC Bill

Name to work—Detained by terrorist  
Situation of work—Detained by terrorist

Situation of work—  
Agency by which work is executed—

Rate of measurement—

Date of measurement  
Name and date of agreement

No. and date of agreement:  
\_\_\_\_\_  
The four lines should be

(These four lines should be repeated at the end of each work.)

| Particulars   | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|---|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|   | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| NW - FDR Road from Toy to<br>Chhavengachh Colony<br>with Potnia Blate |                               |    |    |    |                  |

A Guy - Dept.

Date of ascent - 15-11-21

## (1) Poisonous Bamboo Pilegnut

Labour coll. deb.

$$= 1470 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad} = 350 \text{ m}$$

$$= 2 \times 70 \text{ Nm} \times 5 \text{ rad} = 700 \text{ cm m}$$

$$\leftarrow 1 \times 10^5 \text{ No} \times 520 \text{ u} = 520000 \text{ u}$$

1575-00 u1

(2) Bowley Bamboo Remains

mult vertical ab ab all

Cebk 206

$$3 \times 5 \text{ plots} \times 20 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^2$$

$$= 1 \times 5 \text{ No} \times 30 \text{ cm} = 150 \text{ m}^2$$

450-004

(3) Carthia to Subgrade sections

Stuhler für Büro Party abh.

## Sch. XLV—Form No. 134

| Particulars | Details of actual measurement |        |        |                         | Contents of area |
|-------------|-------------------------------|--------|--------|-------------------------|------------------|
|             | No.                           | L.     | B.     | D.                      |                  |
| —           | 1 x 30.00                     | x 6.00 | x 1.10 | = 198.00 m <sup>3</sup> |                  |
| —           | 1 x 20.00                     | x 6.00 | x 0.90 | = 108.00 m <sup>3</sup> |                  |

$$= 306.00 \text{ m}^3$$

(4) Providing Sui Dales in

Bedding and water bed Banks

Bates above all Cables

Job.

$$— 1 x 20.00 x 1.95 x 0.35 = 13.65 \text{ m}^3$$

$$— 1 x 20.00 x 1.80 x 0.40 = 14.40 \text{ m}^3$$

$$— 1 x 20.00 x 1.75 x 0.35 = 12.25 \text{ m}^3$$

$$— 1 x 30.00 x 1.85 x 0.30 = 16.65 \text{ m}^3$$

$$— 1 x 25.00 x 1.85 x 0.30 = 13.88 \text{ m}^3$$

$$— 1 x 26.00 x 1.85 x 0.30 = 14.43 \text{ m}^3$$

$$— 1 x 28.00 x 1.85 x 0.30 = 15.54 \text{ m}^3$$

$$— 1 x 24.00 x 1.85 x 0.30 = 13.32 \text{ m}^3$$

$$— 1 x 24.00 x 1.40 x 0.30 = 10.08 \text{ m}^3$$

$$124.20 \text{ m}^3$$

(5) Providing Banks Bates

in Row ditches also

all Cables Job.

$$— 1 x 20.00 x 1.95 x 1.35 = 52.65 \text{ m}^3$$

$$— 1 x 20.00 x 1.80 x 0.85 = 30.60 \text{ m}^3$$

$$— 1 x 20.00 x 1.75 x 0.75 = 26.25 \text{ m}^3$$

$$— 1 x 30.00 x 1.85 x 1.25 = 69.75 \text{ m}^3$$

$$— 1 x 25.00 x 1.35 x 0.75 = 22.50 \text{ m}^3$$

$$— 1 x 26.00 x 1.55 x 0.85 = 30.60 \text{ m}^3$$

$$— 1 x 28.00 x 1.50 x 0.85 = 30.60 \text{ m}^3$$

## Sch. XLV—Form No. 134

| Particulars | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area   |
|-------------|-------------------------------|----|----|----|--|
|             | No.                           | L. | B. | D. |  |
|             |                               |    |    |    | Bank Bed — $263.73 \text{ m}^3$                              |
|             |                               |    |    |    | $1 \times 24.00 \times 1.35 \times 0.45 = 14.58 \text{ m}^3$ |
|             |                               |    |    |    | $1 \times 24.00 \times 1.40 \times 0.55 = 18.48 \text{ m}^3$ |
|             |                               |    |    |    | $29.879 \text{ m}^3$   |

(6) Frontage at fully empty

Count bags with land side

dark all Cabuli 205

$$1 \times 20.00 \times 1.20 \times 1.80 = 43.20 \text{ m}^3$$

$$1 \times 30.00 \times 1.50 \times 1.85 = 83.25 \text{ m}^3$$

$$1 \times 30.00 \times 1.45 \times 1.75 = 76.13 \text{ m}^3$$

$$1 \times 10.00 \times 1.25 \times 1.95 = 24.38 \text{ m}^3$$

$$1 \times 20.00 \times 1.35 \times 1.45 = 39.15 \text{ m}^3$$

$$1 \times 20.00 \times 1.40 \times 1.80 = 56.00 \text{ m}^3$$

$$1 \times 28.00 \times 1.40 \times 1.25 = 49.00 \text{ m}^3$$

$$1 \times 26.00 \times 1.40 \times 1.35 = 49.14 \text{ m}^3$$

$$1 \times 25.00 \times 1.40 \times 1.60 = 56.00 \text{ m}^3$$

$$470.65 \text{ m}^3$$

②  $0.034 \text{ m}^3$  per bag wire 13842.64 bags

say 13843 bags

front  
15-1121  
AE

1  
Rear  
15-1121  
DE

③ front  
161249

**Sch. XLV—Form No. 134**

(1) Baulky Baby - 296.79 m<sup>3</sup>

### ***Continuation***

# Abstract of Cost

5

Sch. XLV—Form No. 134

| Particulars                              | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|--|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|  | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| (1) Pounding Bamboo poles                |                               |    |    |    |                  |
| unit labour cost ab                      |                               |    |    |    |                  |
| do                                       |                               |    |    |    |                  |
| - Obj. unit sh N.o (1) P- 1 u.e          |                               |    |    |    |                  |
| 1575.00 m                                |                               |    |    |    |                  |
| @ m 52.24 /m → m 8227.820                |                               |    |    |    |                  |
| (2) Pounding Bamboo running salts        |                               |    |    |    |                  |
| Vertical ab do all cables                |                               |    |    |    |                  |
| 705                                      |                               |    |    |    |                  |
| Obj. unit sh N.o (2) P- 1 u.e            |                               |    |    |    |                  |
| 450.00 m <sup>3</sup>                    |                               |    |    |    |                  |
| @ m 27.71 /m → m 12470.200               |                               |    |    |    |                  |
| (3) Cutchai & Sub-graduation             |                               |    |    |    |                  |
| Shoulder ab do all cables 705            |                               |    |    |    |                  |
| Obj. unit sh N.o (3) P- 2 u.e            |                               |    |    |    |                  |
| 306.00 m <sup>3</sup>                    |                               |    |    |    |                  |
| @ m 174.93 /m <sup>2</sup> → m 53529.200 |                               |    |    |    |                  |
| (4) Pounding sand hills in beddy         |                               |    |    |    |                  |
| all others Bamboo Bales ab               |                               |    |    |    |                  |
| do all cables 705                        |                               |    |    |    |                  |
| Obj. unit sh N.o (4) P- 2 u.e            |                               |    |    |    |                  |
| 124.20 m <sup>3</sup>                    |                               |    |    |    |                  |
| @ m 514.43 /m <sup>2</sup> → m 63892.200 |                               |    |    |    |                  |
| (5) Pounding Bamboo Bales                |                               |    |    |    |                  |
| in Red catchy ab do all                  |                               |    |    |    |                  |
| Cables 705.                              |                               |    |    |    |                  |

Continuation

By 212169.200

P-T.O.

## Sch. XLV—Form No. 134

| Particulars  | Details of actual measurement |    |            |    | Contents of area  |
|--|-------------------------------|----|------------|----|-------------------|
|  | No.                           | L. | B.         | D. |                   |
|  |                               |    |            |    | BF - m 212 169 20 |
| (4) Oly wh shalo   | (5) P-3                       |    |            |    |                   |
| WL 296.79m <sup>3</sup>                                      |                               |    |            |    |                   |
| Qw 2168.72/m <sup>3</sup>                                    | —                             | m  | 643 654 20 |    |                   |
| (6) Boundary ad bkhij<br>ently cont bags mult<br>bed swl abh |                               |    |            |    |                   |
| 04 wh yl nl (6) P-3 ne                                       |                               |    |            |    |                   |
| 13843 bags   |                               |    |            |    |                   |
| Qw 38031 per   | —                             | m  | 526449 20  |    |                   |
|  |                               | m  | 1382272 20 |    |                   |
| Add 124.43 + (4) P 165 873 20                                |                               |    |            |    |                   |

Add 212.000000 (5) P 13823 20

Add bags per (4) P 47521 20

P 1609489 20

Aud  
15/11/21  
AE

1  
Am  
15/11/21  
SE